

वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर में गरिबट की संभावना

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) ने वर्ष 2024 के लिये अपने वैश्विक बेरोज़गारी पूर्वानुमान को संशोधित किया है।

- यह संशोधन मुख्य रूप से चीन, भारत तथा उच्च आय वाले देशों में इस वर्ष अब तक अपेक्षा से कम बेरोज़गारी दर के कारण किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) को उम्मीद है कि 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 4.9% होगी, मूल रूप से पूर्वानुमान के बाद कि इस वर्ष बेरोज़गारी बढ़कर 5.2% हो जाएगी।
- समग्र सुधार के बावजूद, श्रम बाज़ारों में असमानताएँ बनी हुई हैं तथा विशेष रूप से नमिन आय वाले देशों में महिलाएँ इससे प्रभावित हैं।
- रपिर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में 183 मिलियन लोग बेरोज़गार हैं, जबकि बिना नौकरी वाले लेकिन काम करना चाहने वाले लोगों की संख्या 402 मिलियन है।
- ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिये **संयुक्त राष्ट्र** की एक कार्यकारी एजेंसी है।
 - इसकी स्थापना वर्ष 1919 में **वर्साय की संधि** के एक भाग के रूप में की गई थी, जिसके तहत **प्रथम विश्व युद्ध** समाप्त हुआ था और यह 1946 में **संयुक्त राष्ट्र** की एक विशेष एजेंसी बन गई।
 - **जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित इस संगठन के 187 सदस्य देश** हैं (भारत इसका संस्थापक सदस्य है) और यह एक त्रिपक्षीय संगठन के रूप में कार्य करता है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों को एक साथ लाती है, ताकि श्रम मानकों को निर्धारित किया जा सके।
 - ILO **संयुक्त राष्ट्र विकास समूह** का भी सदस्य है, जिसका लक्ष्य **सतत विकास लक्ष्यों** को प्राप्त करना है।

और पढ़ें: [भारत रोज़गार रपिर्ट 2024: ILO](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/global-unemployment-rate-to-marginally-decrease-in-2024)